



Elegant

Marbles & Grani Industries Limited
Manufacturers ▲ Exporters ▲ Importers

January 10, 2024

To,
BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Script Code: 526705

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice to Eligible Shareholders – Buyback of Equity Shares

Ref: Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

This is to inform you that in compliance with Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A & Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of Newspaper advertisement dated January 09, 2024 published in the following newspapers on January 10, 2024:

- Business Standard – all editions (English & Hindi) and;
- Jagruk Times – Sirohi (Hindi).

The above information is also being made available on the website of the Company www.elegantmarbles.com

Request you to take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Digitally signed by POOJA DHARMENDRA PONDA
Date: 2024.01.10 18:14:10 +05'30'

Pooja Ponda

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

Scarlet
Marble Masterpieces

Jasper
The Gemstone Collection

Sienna
The Tile Boutique

Enchanté
Culinary Delights

The Galleries

Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound, S. B. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 1
T: (91-22) 2493 9676, 2491 1144 F: (91-22) 2493 0782
Plot No 2099, Western Express Highway, Vile Parle (E), Mumbai - 99,
Telfax: (91-22) 2610 9871, 2615 0120

Works & Registered Office

E-7, 8, 9, RICO Industrial Area, Abu Road, District Sirohi 307026, Rajasthan - India.
T: (91-2974) 294792

E: elegantmarbles@gmail.com www.elegantmarbles.com CIN: L14101RJ1984PLC003134

HEALTH CHECK FOR HEALERS

The big audit firms are under the NFRA lens. What are they saying?

RUCHIKA CHITRAVANSHI
New Delhi, 9 January

In recent times, more and more audit firms have challenged company managements, some going to the extent of resigning on the ground of incompatibility with what the management wanted or was doing. This, said Ajay Bhushan Pandey, chairman of the National Financial Regulatory Authority (NFRA), in a media interview, was a good sign.

Now, the national accounting watchdog has turned the spotlight on audit firms themselves. These firms are perceived to be the eyes and ears of non-promoter investors.

The NFRA on December 22 released the inspection reports for audit firms BSR & Co, Deloitte Haskins & Sells, SRBC & Co, and Price Waterhouse Chartered Accountants. This was followed by a report on Walker Chandio & Co. BSR is part of the KPMG network. SRBC part of the EY network, and DHSL is part of the Deloitte network. Walker Chandio & Co's affiliation could not be established.

As a result, the firms, including those that are part of the Big Four network, so called because they handle the bulk of the audit business in India as well as around the world, are taking stock of the recent inspection report by the NFRA to make their systems more compliant with the norms. However, on the authority's concerns over offering non-audit services to audit clients, the audit firms have clarified their position and stated that they have not violated the law.

"The overall findings dealt with the potential improvements to be adopted in the future and were not in the nature of negative assessments of the audit work inspected. The inspection provides an opportunity for the firm to review and evaluate its policies and procedures to further enhance the system of quality control," says a partner at Deloitte, who does not want to be named.

Deloitte plans to make its independence confirmation completely electronic and do away with manual documentation, as the issue was raised in the inspection report.

Though this inspection report was the first such exercise by the NFRA, it could go on to hold more such inspections for other firms as well, say industry sources.

While pointing to the several gaps ac-



ross audit firms related to documentation and violation of Standards on Auditing, the NFRA stated in a report that the areas of weaknesses should be treated as areas of potential improvement and not as a negative assessment of the work of the firm unless specifically indicated otherwise.

"We welcome the observations made in the NFRA report, and there are certain efforts being made to further enhance audit processes and documentation, which have also been acknowledged in

the NFRA report," a Walker Chandio & Co spokesperson said.

Conflict of interest

One of the more serious issues raised by the NFRA in its report is about violation of section 144 of the Companies Act, which prohibits firms from providing certain non-audit services to audit clients.

The firms, for their part, deny any such violation. Deloitte and EY, for instance, have stated that the non-audit services

were being provided before they got on board as auditors and were discontinued as soon as the audit engagement began.

But, with respect to networking arrangements of these firms with the respective Big Four entities, there seems to be more scope for work.

The financial reporting authority has recommended that SRBC, an EY member firm, should make the necessary changes to its India policy to recognise the direct or indirect relationship between the member firms of their international network. "It should also review all its ongoing engagements considering EY Network entities as directly or indirectly related to SRBA Entities," NFRA said.

EY, according to sources, is examining internally if it needs to make any changes to its India policy with respect to its networking arrangements, as suggested by the NFRA. Deloitte, too, say sources, is studying the matter related to its networking agreement to see if it needs reworking. "The NFRA in its report has asked that the firm follow the network agreement in force," the Deloitte partner adds.

In its firm-wide review of audit control systems of BSR & Co, the watchdog found that the firm's claim of being independent from KPMG India entities was unacceptable. The NFRA said BSR did not provide details of its leadership structure, KPMG network entities, and non-audit services provided by those entities to audit clients of the firm during the inspection.

In an email response, BSR & Co said it had invested considerable effort in building a robust system of quality control to support compliance and applicable auditing standards. "We appreciate the recommendations and observations in the inspection report and will constructively engage with Hon'ble NFRA in evaluating and implementing further improvements to our policies and practices," it said.

Network effect

In case of Walker Chandio & Co, the NFRA stated in its inspection report: "We observe that there is 'direct or indirect' relationship amongst WCCL, GTBL, GTAPL and GTIL, as per Explanation (ii) to Section 144 and that these entities are also part of a 'Network'."

Refuting the NFRA's interpretation, Walker Chandio & Co stressed that it does not provide any of the prohibited non-audit services to audit clients. "We believe that

TAKING STOCK

SRBC

What NFRA said

- Firm did not have a documented leadership structure
- Independent policies of the firm do not recognise the direct and indirect relationship between SRBC and its network members of Ernst & Young Global Limited

What the firm said

- We confirm that we do not provide any services prescribed under Section 144 of the Companies Act
- We have noted the suggestions of NFRA and will further clarify the requirements of the Companies Act in our India-specific independence policy documents

PWC CA

What NFRA said

- Duality of documentation
- Firm advised to take further steps to avoid potential non-compliance with Indian law due to the provision of non-audit services

What the firm said

- We remain committed to ensuring we have appropriate and rigorous control over the provision on non-audit services to regulated entities
- There is an opportunity to enhance documentation and articulation in our audit paper works

BSR & CO

What NFRA said

- Firm did not provide details of its leadership structure, KPMG Network entities, and non-audit services
- Firm's claim of being independent from KPMG India entities

was unacceptable

What the firm said

- We appreciate the recommendations and observations in the inspection report
- NFRA's inspection process provides us with an opportunity to constructively understand their regulatory perspective and to identify qualitative improvements to our systems and processes

DELOITTE HASKINS & SELLS

What NFRA said

- No board as envisaged in the networking agreement
- Audit firm provided non-audit services, which amounted to self-review threat
- Did not reassess and recategorise audit risk

What the firm said

- We have set out certain matters to incorporate any amendments in the final report
- We acknowledge risk assessment was not revised...adverse opinion was issued for the year ending March 31, 2019

WALKER CHANDIOK & CO

What NFRA said

- Duality of audit documentation in both physical and electronic format
- Prohibited non-audit services provided to auditee company

What the firm said

- We are in compliance with the Section 144 requirements
- We have taken appropriate proactive measures to address the points noted by us during inspection

we are compliant with the auditor independence related requirements under the applicable laws and regulations," the firm's spokesperson said.

A senior executive of the auditing industry, however, says there is need for greater clarity about the finer aspects of the Section 144, which does not allow non-audit services to audit clients to avoid a conflict of interest, one of which is management services.

In the European Union, Australia and the United Kingdom, auditors are not allowed to provide non-audit services such

as taxation, restructuring, and valuation to protect objectivity of the audit. India, according to the current rules, allows these services to be given by auditors.

"There is a need to define, for instance, what managerial services are, so it is not open to interpretation. Some guidance may be useful," the senior industry executive says.

Industry sources say inspections such as these are useful as they help the firms understand the expectations of the regulator and also help the regulator interact with the audit firms constructively.

Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Registered Office: E-7/9, RIICO Industrial Area, Abu Road, Sirohi, Rajasthan, 307026, India
Corporate Office and Correspondence Address: Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra, 400013, India | CIN: L14101RJ1984PLC003134
Tel: +91 22 2496 0771 | Website: www.elegantmarbles.com | Email: companysecretary@elegantmarbles.com
Compliance Officer and Company Secretary: Ms. Pooja Ponda

OFFER OPENING NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

BUYBACK OF UPTO 6,97,000 (SIX LAKH NINETY-SEVEN THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 19.04% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON SEPTEMBER 30, 2023 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON JANUARY 05, 2024. ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 385 (RUPEES THREE HUNDRED EIGHTY-FIVE ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 26,83,45,000 (RUPEES TWENTY-SIX CRORES EIGHTY-THREE LAKH AND FORTY-FIVE THOUSAND ONLY) ("BUYBACK SIZE")

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- the public announcement in connection with the Buyback published on December 26, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Jagruk Times (Hindi - Sirohi Edition) ("Public Announcement");
- the letter of offer dated January 06, 2024 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, January 05, 2024 has been completed on by January 09, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	86 Equity Shares for every 353 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	161 Equity Shares for every 878 Equity Shares held on the Record Date

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- In case the Shares are held in Dematerialised Form:** Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 31 of the Letter of Offer.
- In case the Shares are held in Physical Form:** Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 32 of the Letter of Offer.
- In case of non-receipt of the Letter of Offer:** The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 34 of the Letter of Offer.

In case of non-receipt of Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, the same is also available on the website of the Company (www.elegantmarbles.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com) and Stock Exchange, BSE (www.bseindia.com).

For terms and conditions of Buyback and other details, please refer the letter of offer.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Opening of the Buyback	January 11, 2024	Thursday
Date of Closing of the Buyback	January 17, 2024	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback*	January 19, 2024	Friday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchange	January 24, 2024	Wednesday

**If the eligible shareholders hold Equity shares in physical form*

For and on behalf of the Board of Directors of
Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Sd/- Rajesh Agrawal Chairman & Managing Director DIN: 00017931	Sd/- Rakesh Agarwal Managing Director DIN: 00017951	Sd/- Pooja Ponda Company Secretary & Compliance Officer ACS 66677
--	---	---

Place: Mumbai
Date: January 09, 2024

#BSBankingShow

IN TOMORROW'S EPISODE

THE Business Standard
BANKING SHOW

Thursdays | 4pm



What are RBI's guidelines for unclaimed deposits?

Banking Unlocked



Visit mybs.in/BankingShow or scan this code to watch

Business Standard
Insight Out

[businessstandard](https://www.businessstandard.com) [bsindia](https://www.bsindia.com) [business-standard](https://www.business-standard.com) [business-standard.com](https://www.business-standard.com)

नए एसआईपी खातों का रिकॉर्ड

म्युचुअल फंडों का ऊंचा रिटर्न, एसआईपी को प्राथमिकता से 2023 में शुद्ध रूप से 1.5 करोड़ खाते जुड़े

अभिषेक कुमार
मुंबई, 9 जनवरी

म्युचुअल फंडों ने साल 2023 में तेज रफ्तार से नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) खाते जोड़े और कैलेंडर वर्ष में नए खातों की संख्या 1.5 करोड़ के पार निकल गई, जो साल 2022 के 1.22 करोड़ के आंकड़ों के मुकाबले 24 फीसदी ज्यादा है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फो) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

म्युचुअल फंड के अधिकारियों और वितरकों के मुताबिक एसआईपी खातों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से शेयर कीमतों में लगातार तेजी के बीच इक्विटी योजनाओं के ऊंचे रिटर्न के कारण हुई। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी-50 ने साल की समाप्ति क्रमशः 18.7 फीसदी व 20 फीसदी की बढ़त के साथ कीं। वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने इससे दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की।

मनीफ्रंट के सीईओ मोहित गर्ग ने कहा कि हाल के वर्षों में म्युचुअल फंडों में निवेश की प्रवृत्ति बढ़ी है और साल 2023 में शेयर बाजारों में तेजी के कारण इस दिलचस्पी में और इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इक्विटी और एमएफ ने जिस तरह का रिटर्न दिया है उससे ऐसे कई नए निवेशक म्युचुअल फंडों के साथ जुड़ रहे हैं जो इससे चूक गए थे।

निपॉन इंडिया एमएफ के सीईओ संदीप सिक्का ने कहा कि एसआईपी म्युचुअल फंडों में के निवेश के तरजीही साधन के तौर पर उभर रहा है। देश भर के निवेशक म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए एसआईपी चुन रहे हैं। हमारे एक चौथाई निवेशक पहली बार एसआईपी निवेशक बने हैं। यह अनुशासित और लंबी अवधि के निवेश को



लेकर प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

प्रत्यक्ष इक्विटी के क्षेत्र में भी बाजार का असर देखा गया है। निवेशकों ने दिसंबर में 42 लाख नए डीमैट खाते खोले, जो किसी एक माह में सबसे ज्यादा खुले नए खाते हैं। नए एसआईपी खातों पर बाजार के प्रदर्शन का असर मासिक एसआईपी आंकड़ों से भी साफ होता है। सकल नए एसआईपी खाते साल 2023 की दूसरी छमाही में 55 फीसदी ज्यादा खुले और ये 2.12 करोड़ रहे जो पहली छमाही में 1.37 करोड़ थे।

म्युचुअल फंड उद्योग को आगे ले जाने के लिए एसआईपी अहम जरिया बन गया है और पिछले दो साल से एसआईपी के जरिये निवेश करीब-करीब हर महीने बढ़ रहा है। जनवरी 2017 में मासिक एसआईपी निवेश 4,100 करोड़ रुपये था जो दिसंबर 2023 में बढ़कर 17,600 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

एसआईपी बना निवेश का तरजीही जरिया

■ हाल के वर्षों में म्युचुअल फंडों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और साल 2023 में शेयर बाजारों में तेजी के कारण दिलचस्पी में और इजाफा हुआ

■ जनवरी 2017 में मासिक एसआईपी निवेश 4,100 करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर 17,600 करोड़ रुपये पर पहुंच गया

■ हालांकि साल 2023 में एसआईपी खाते बंद होने की रफ्तार नए खाते खुलने के मुकाबले ज्यादा रही

■ स्मॉलकैप फंडों ने साल 2023 में 68 लाख खाते जोड़े हैं। इसकी तुलना में लार्जकैप फंडों में महज 3 लाख खाते जुड़े हैं

■ साल 2023 में पांच अग्रणी इक्विटी श्रेणियों में 1.62 लाख करोड़ रुपये के निवेश का 85 फीसदी हिस्सा आया

एसआईपी निवेश में साल 2021 से सतत वृद्धि हो रही है।

हालांकि साल 2023 में एसआईपी खाते बंद होने की रफ्तार नए खाते खुलने के मुकाबले ज्यादा रही। नए खातों का सकल जुड़ाव साल 2023 में 36 फीसदी बढ़कर 3.49 करोड़ हो गया जबकि बंद होने वाले खातों की संख्या 47 फीसदी उछलकर 1.97 करोड़ हो गई।

इसके परिणामस्वरूप एसआईपी बंद होने का अनुपात (जो नए खाते के जुड़ाव के प्रतिशत के तौर पर एसआईपी के बंद होने वाले खाते का अनुपात बताता है) साल 2022 के 0.53 फीसदी से 0.57 फीसदी पर पहुंच गया।

खातों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो ज्यादातर नए एसआईपी खाते स्मॉलकैप व मिडकैप फंडों में हो सकते हैं। स्मॉलकैप फंडों ने साल

2023 में 68 लाख खाते जोड़े हैं। इसकी तुलना में लार्जकैप फंडों में महज 3 लाख खाते जुड़े हैं। मिडकैप के साथ स्मॉलकैप और थीमैटिक योजनाओं ने पिछले साल के निवेश का ज्यादातर हिस्सा आकर्षित किया।

नुवामा ऑल्टरनेटिव ऐंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्रमुख अभिलाष पगारिया ने कहा कि साल 2023 में पांच अग्रणी इक्विटी श्रेणियों में 1.62 लाख करोड़ रुपये के निवेश का 85 फीसदी हिस्सा आया। इनमें योगदान देने वालों में स्मॉलकैप (25 फीसदी), सेक्टोरल/थीमैटिक (19 फीसदी), मिडकैप (14 फीसदी), मल्टीकैप (12 फीसदी) और लार्ज व मिडकैप (12 फीसदी) शामिल रहे। लार्जकैप व फोक्सड स्कीम ने क्रमशः 3,000 करोड़ रुपये व 2,700 करोड़ रुपये की निकासी का सामना किया।

सुस्त पड़ेगी मुनाफे में वृद्धि की रफ्तार!

पृष्ठ 1 का शेष

वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में निफ्टी 50 कंपनियों के कुल शुद्ध मुनाफे में करीब 70 फीसदी हिस्सेदारी बीएफएसआई, तेल एवं गैस तथा आईटी क्षेत्र की रही थी। दूसरी ओर वाहन एवं खनन तथा धातु कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी थी।

बैंक एवं बीमा (बीएफएसआई) कंपनियों को छोड़ दें तो सूचकांक कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 16.3 फीसदी बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये रहने के आसार हैं, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही से 35.7 फीसदी और पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से 0.5 फीसदी कम है। इसकी तुलना में बीएफएसआई, तेल एवं गैस तथा खनन एवं धातु क्षेत्र की कंपनियों को छोड़ दें तो सूचकांक कंपनियों का कुल शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 13.6 फीसदी बढ़कर 0.77 लाख करोड़ रुपये रह सकता है, जो दूसरी तिमाही की 20.7 फीसदी और पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की 23.3 फीसदी वृद्धि से कम है। सूचकांक कंपनियों की कुल शुद्ध बिक्री

इस साल 40 अरब डॉलर इक्विटी निर्गम के आसार

बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 जनवरी

कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को मजबूत तरलता हालात की वजह से इस साल इक्विटी निर्गम का आकार 40 अरब डॉलर (3.3 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंचने का अनुमान है। ब्लूमबर्ग की इक्विटी पूंजी बाजार (ईसीएम) सूची में 2023 में पहले स्थान पर शामिल रहे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) और एफआईआई) से 50 अरब डॉलर (4.2 लाख करोड़ रुपये) के संयुक्त प्रवाह का अनुमान है। इससे नए निवेश विकल्पों को बाजार में प्रवेश करने और सेकंडरी बाजार में बुलबुले जैसे हालात बनने से रोकने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2023 में, ईसीएम यानी इक्विटी पूंजी बाजार द्वारा करीब 38 अरब डॉलर जुटाए गए थे, जो 2020 के 39 अरब डॉलर से कुछ कम है। इसके साथ ही भारत इस इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने के मामले में वैश्विक तौर पर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 2023 में, डीआईआई का पूंजी निवेश 22.3 अरब डॉलर रहा, जबकि एफआईआई ने 20.5 अरब

डॉलर का निवेश किया। 38 अरब डॉलर की ईसीएम गतिविधि में 24 अरब डॉलर की बिक्री शामिल थी। 2023 में आईपीओ में भी नरमी दर्ज की गई और औसत आईपीओ आकार में कमी आई। आईपीओ से जुटाई जाने वाली कुल राशि 2023 में 6.4 अरब डॉलर रही जो

2022 में 8.2 अरब डॉलर थी। वहीं औसत निर्गम आकार 2020 के 26.5 करोड़ डॉलर से चटकर 11 करोड़ डॉलर रह गया। औसत सूचीबद्धता लाभ 33 प्रतिशत दर्ज किया गया जिससे बीएसई आईपीओ सूचकांक वैश्विक तौर पर तीसरा सर्वाधिक शानदार प्रदर्शन वाला बन गया। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को

पीई/वीसी बिक्रवाली के जरिये इस साल बिक्री के सौदों में भी तेजी आने का अनुमान है।

बैंक का कहना है कि 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन, फिनटेक और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आईपीओ जाने की संभावना है। इसके अलावा, कोटक में बैंकों का कहना है कि आईपीओ के लिहाज से 2023 में पिछले आठ वर्षों के मुकाबले सभी क्षेत्रों में सबसे अच्छा विविधीकरण देखा गया। आईपीओ से पूंजी जुटाने के मामले में वित्तीय क्षेत्र की भागीदारी कैलेंडर वर्ष 2015-18 के औसत 56 प्रतिशत से घटकर कैलेंडर वर्ष 2023 में महज 13 प्रतिशत रह गई।

गोदरेज कंज्यूमर के शेयर की थम सकती है रफ्तार

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 9 जनवरी

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) का शेयर वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन के बाद सोमवार को करीब 3.7 प्रतिशत गिर गया। ब्रोकरों ने कंपनी पर दबाव रहने की आशंका जताई है। सोमवार की गिरावट से पहले पिछले महीने के दौरान इस शेयर में 15 प्रतिशत की तेजी आई थी। कंज्यूमर सेगमेंट में उसकी प्रतिस्पर्धी मैरिको का शेयर भी 4 प्रतिशत गिरा। हालांकि मंगलवार को मैरिको में 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई थी।

मैरिको ने संकेत दिया है कि समेकित बिक्री निचले एक अंक तक घट जाएगी, क्योंकि प्रमुख घरेलू पोटफोलियो में कीमत गिरावट और कुछ खास वैश्विक क्षेत्रों में मुद्रा में गिरावट की वजह से कंपनी को दबाव का सामना करना पड़ेगा। ब्रोकर बिक्री में एक अंक की वृद्धि का अनुमान जता रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि एफएमसीजी क्षेत्र ने दूसरी तिमाही में भी तिमाही आधार पर समान मांग का रुझान दर्ज किया और शहरी बाजारों में मजबूती बनी रही। जनरल ट्रेड (जीटी) चैनल में तरलता और मुनाफे पर दबाव से इस क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है, जबकि वैकल्पिक सेगमेंटों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

कंपनी अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान खपत रुझान में तेजी को ध्यान में रखते हुए आशान्वित है। सुधरते वृहद आर्थिक संकेतकों, सरकारी खर्च में लगातार सुधार और उपयुक्त उपभोक्ता मूल्य निर्धारण से कंपनी को राहत मिलने के आसार हैं।



नोमुरा रिसर्च का मानना है कि कंपनी के भारतीय व्यवसाय द्वारा सफोला खाद्य तेल कीमतों में बड़ी कटौती के कारण लगातार तीसरी तिमाही में बिक्री पर दबाव का अनुमान है। पैराशूट कोकोनट ऑयल और मूल्य वर्धित हेयर ऑयल की बिक्री में बड़ा सुधार नहीं आने से भी कंपनी को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

कंपनी को सकल मार्जिन बढ़ने की संभावना है क्योंकि मुख्य कच्चे माल खोपरा और खाद्य तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी हुई हैं। सकल मार्जिन सालाना आधार पर 49.0 आधार अंक तक बढ़कर 49.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है, जबकि परिचालन मुनाफा मार्जिन एक साल पहले के मुकाबले 24.0 आधार अंक तक बढ़कर 20.9 प्रतिशत

हो सकता है। विज्ञापन एवं प्रोत्साहन खर्च में वृद्धि की भरपाई सकल मार्जिन में तेजी से हो सकती है। कंपनी मौजूदा और नए फ्रैंचाइजी दोनों की दीर्घावधि इक्विटी मजबूत बनाने के लिए विज्ञापन खर्च बढ़ा रही है। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च ने इस शेयर के लिए 660 रुपये के कीमत लक्ष्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के समेकित बिक्री अपडेट से ऊंचे एक अंक की बिक्री वृद्धि का संकेत मिलता है, जबकि रुपये के लिहाज से बिक्री वृद्धि सपाट रहेगी। हालांकि रुपये के संदर्भ में अग्रणी और लैटिन अमेरिकी मुद्राओं और ऊंची मुद्रास्फीति की वजह से बिक्री निचले एक अंक की गिरावट

दर्ज कर सकती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि भारत में परिचालन परिवेश सितंबर तिमाही के समान रहा।

नोमुय रिसर्च के मिहिर पी शाह और उमंग पारेख का कहना है कि जीसीपीएल के लिए वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट नकारात्मक रहा है। ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि शेयर भाव पर अल्पावधि में कुछ दबाव आ सकता है, भले ही बिक्री वृद्धि और स्थिर मुद्रा में अन्य सभी व्यवसायों में वृद्धि का परिवेश मजबूत बना हुआ हो। एमके रिसर्च ने भी इस शेयर की रेटिंग घटा दी है, क्योंकि सकारात्मक बदलावों का असर कीमतों पर पहले ही काफी हद तक दिख चुका है। ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 1,325 रुपये का कीमत लक्ष्य तय किया है।

दिसंबर तक 23,500 पर पहुंचेगा निफ्टी: गोल्डमैन सैक्स

बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 जनवरी

गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2024 तक बेंचमार्क निफ्टी-50 का लक्ष्य संशोधित कर 23,500 कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से 9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है। अमेरिकी ब्रोकरेज ने इससे पहले 21,800 का लक्ष्य तय किया था। आय अपग्रेड और मूल्यांकन की दोबारा रेटिंग की बाद लक्ष्य में बढ़ोतरी हुई है।

गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट में कहा कि आर्थिक मोर्चे पर बेहतर से हमने 2024 के आखिर के लिए निफ्टी का लक्ष्य बढ़ाकर 23,500 कर दिया है, जो कीमत के लिहाज से 9 फीसदी और डॉलर में 12 फीसदी का रिटर्न दर्शाता है। संशोधित लक्ष्य में 2 फीसदी ज्यादा प्रति शेयर आय (ईपीएस) और 6 फीसदी ज्यादा लक्षित पीई (19.3 गुना) शामिल है।

ब्रोकरेज ने कहा कि वैश्विक आर्थिक हालात दो महीने पहले के

संशोधित लक्ष्य मौजूदा स्तर से 9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है

मुकाबले इस उम्मीद में बेहतर हुए हैं कि अमेरिका में मजबूत वृद्धि होगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में कटौती कर सकता है। बेहतर वृद्धि और दर कटौती की उम्मीद ने हाल में हमें निफ्टी के लिए अपना लक्ष्य बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसमें मूल्यांकन गुणक का उच्च लक्ष्य शामिल किया गया है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2024 के आखिर तक निफ्टी 23,500 पर पहुंच जाएगा।

गोल्डमैन सैक्स के इक्विटी रणनीतिकारों सुनील कौल और तिमाथी मोए ने एक नोट में कहा कि हम देशी क्षेत्रों और लार्जकैप (मिड व स्मॉलकैप के अलावा) के लिए अपनी पसंद बरकरार रखे हुए हैं और विभिन्न सिक्लिंकल व अल्पावधि के लिहाज से बेहतर

रिटर्न वाले आइडिया को प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्रोकरेज ने जिन अहम थीम की पहचान की है उनमें मेक इन इंडिया, रक्षा और एनर्जी ट्रांजिशन शामिल है। उसे उम्मीद है कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शामिल कंपनियां साल 2024 में आय में 15 फीसदी और 2025 में 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज करेंगी। साल 2023 में एमएससीआई इंडिया यूनिवर्स ने आय में 20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि फेड की पहली दर कटौती के बाद देशी बाजारों में एक से तीन महीने तक तेजी आ सकती है, लेकिन उसके बाद रिटर्न धीरे-धीरे गायब हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स के अमेरिकी अर्थशास्त्री फेड की ओर से दरों में साल 2024 में पांच बार कटौती का अनुमान जता रहे हैं जबकि पहले सिर्फ एक बार कटौती का अनुमान था और इसकी शुरुआत मार्च से होनी है।

उठापटक के बाद सपाट बंद हुए बाजार

बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 जनवरी

बेंचमार्क सूचकांक मंगलवार को करीब एक फीसदी चढ़ने के बाद मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। विश्लेषकों ने कहा कि 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल एक बार फिर 4 फीसदी के पार चला गया है। ऐसे में इस साल फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की निवेशकों की उम्मीद धुंधली हो गई है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को अमेरिका में जारी होने वाले महंगाई के आंकड़े और बड़ी कंपनियों की आय के ऐलान बाजार की आगे की चाल में मदद कर सकते हैं। कारोबारी सत्र के दौरान 72,035 की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स 31 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 71,386 पर बंद हुआ। निफ्टी दिन के उच्चस्तर 21,724 से 180 अंक नीचे आया और अंत में 32 अंक की बढ़त के साथ 21,545 पर बंद हुआ।

कारोबारी सत्र के दौरान तेजी की वजह अमेरिकी बाजारों में खास तौर से तकनीकी शेयरों में हुई बढ़ोतरी थी। हालांकि तकनीकी शेयरों की प्रमुखता वाला

नैसडेक इंडेक्स सोमवार को 2.2 फीसदी चढ़ा था, लेकिन मंगलवार के कारोबार में इसकी बढ़त हवा हो गई। यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत ने भी निवेशकों को मुनाफावसुली के लिए प्रोत्साहित किया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका में महंगाई में संभावित नरमी को लेकर बाजार का आशावाद अल्पावधि में दरों में कटौती को लेकर उम्मीद बंधा रहा है, जिससे बाजार की धारणा मजबूत हो रही है। लेकिन इस बीच एशियाई बाजारों और महंगे मूल्यांकन की चिंता से मिले मिश्रित संकेत से मुनाफावसुली उभर रही है।

विश्लेषकों ने कहा कि दिन के उच्चस्तर से काफी नीचे आने के बावजूद बाजार अपने अहम समर्थन स्तर से ऊपर बना हुआ है। फेडरल रिजर्व की दर कटौती की उम्मीद, मजबूत आर्थिक आंकड़े, कंपनियों की आय और राज्यों के चुनाव नतीजे अनुमान के मुताबिक रहने की उम्मीद के बीच भारतीय इक्विटी में पिछले साल तेजी दर्ज की गई थी। बाजार में चढ़ने व गिरने वाले शेयरों का अनुपात अनुकूल रहा और 2,241 शेयर चढ़े जबकि 1,606 में गिरावट आई।

Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Registered Office: E-7/9, RICO Industrial Area, Abu Road, Sirohi, Rajasthan, 307026, India
Corporate Office and Correspondence Address: Elegant House, Raghuvanshi Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai, Maharashtra, 400013, India | CIN: L14101RJ1984PLC003134
Tel: +91 22 2498 0771 | Website: www.elegantmarbles.com | Email: companysecretary@elegantmarbles.com
Compliance Officer and Company Secretary: Ms. Pooja Ponda

OFFER OPENING NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

BUYBACK OF UPTO 6,97,000 (SIX LAKH NINETY-SEVEN THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES, OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 19.04% OF THE ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS ON SEPTEMBER 30, 2023 ("BUYBACK"). THE BUYBACK WILL BE UNDERTAKEN ON A PROPORTIONATE BASIS, FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES AS ON JANUARY 05, 2024. ("RECORD DATE"), BY WAY OF A TENDER OFFER THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM ("TENDER OFFER"), FOR CASH AT A PRICE OF RS. 385 (RUPEES THREE HUNDRED EIGHTY-FIVE ONLY) ("BUYBACK PRICE") PER EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 26,83,45,000 (RUPEES TWENTY-SIX CRORES EIGHTY-THREE LAKH AND FORTY-FIVE THOUSAND ONLY) ("BUYBACK SIZE")

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- a) the public announcement in connection with the Buyback published on December 26, 2023 in the following newspapers: i) Business Standard (English - All editions); ii) Business Standard (Hindi - All editions); and iii) Jagruk Times (Hindi - Sirohi Edition) ("Public Announcement");
- b) the letter of offer dated January 06, 2024 in connection with the Buyback ("Letter of Offer").

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. Friday, January 05, 2024 has been completed on by January 09, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

Record Date and Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category:

Category of Shareholders	Ratio of Buyback
Reserved category for Small Shareholders	86 Equity Shares for every 353 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	161 Equity Shares for every 878 Equity Shares held on the Record Date

Instruction to Eligible Shareholders

All the Eligible Shareholders of the Company, holding shares in dematerialized and physical form, registered or unregistered are eligible to participate in this Buyback at any time during the period from Buyback Opening Date to Buyback Closing Date ("Tendering Period") for this Buy-Back:

- (a) **In case the Shares are held in Dematerialised Form:** Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their broker the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback as per the procedure specified in Clause 20.24 on page 31 of the Letter of Offer.
- (b) **In case the Shares are held in Physical Form:** Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Buyback through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 20.25 on page 32 of the Letter of Offer.
- (c) **In case of non-receipt of the Letter of Offer:** The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 20.28 on page 34 of the Letter of Offer.

In case of non- receipt of Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, the same is also available on the website of the Company (www.elegantmarbles.com), SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in), the Manager to the Buyback (www.sundaecapital.com) and Stock Exchange, BSE (www.bseindia.com).

For terms and conditions of Buyback and other details, please refer the letter of offer.

SCHEDULE OF ACTIVITIES

Particulars	Date	Day
Date of Opening of the Buyback	January 11, 2024	Thursday
Date of Closing of the Buyback	January 17, 2024	Wednesday
Last date of receipt of the completed Tender Forms and other specified documents by the Registrar to the Buyback*	January 19, 2024	Friday
Last date for settlement of bids on the Stock Exchange	January 24, 2024	Wednesday

*If the eligible shareholders hold Equity shares in physical form

For and on behalf of the Board of Directors of
Elegant Marbles and Grani Industries Limited

Sd/- Rajesh Agrawal Chairman & Managing Director DIN: 00017931	Sd/- Rakesh Agarwal Managing Director DIN: 00017951	Sd/- Pooja Ponda Company Secretary & Compliance Officer ACS 66677
--	---	---

Place: Mumbai
Date: January 09, 2024